



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 अग्रहायण 1944 (श10)
(सं० पटना 1081) पटना, वृहस्पतिवार, 15 दिसम्बर 2022

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना
15 दिसम्बर 2022

सं० वि०सं०वि०-18/2022-3990/वि०सं०—“बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक-15 दिसम्बर, 2022 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
पवन कुमार पाण्डेय,
सचिव।

बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) विधेयक, 2022

[वि०स०वि०-17/2022]

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ अतिरिक्त राशियों का वर्ष 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम। - यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1989-90) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा।
2. 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 34,46,983 रुपये की निकासी।
बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-8 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जो कुल मिलाकर रु० 34,46,983/- (चौतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भागों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत्त राशियों से अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।
3. विनियोग। - इस अधिनियम के द्वारा जिस राशि को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है, उन्हें वर्ष 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित्त विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।

अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)

वित्तीय वर्ष 1989-90					अधिकाई व्यय की रकम (रुपये में)		
क्रम संख्या	अनुदान/ विनियोग संख्या	सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है।	विभाग का नाम	राजस्व/पूंजी	बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	27	परिवार कल्याण	स्वास्थ्य	राजस्व	3446983	-	3446983
				कुल	3446983	-	3446983

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद-204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। वित्तीय वर्ष 1989-90 में, बिहार विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या-707 में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।

31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए 34,46,983 रुपये (चौंतीस लाख छियालीस हजार नौ सौ तिरासी) की राशि का शोधन और विनियोग बिहार विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ट है।

(विजय कुमार चौधरी)
भार-साधक सदस्य

पटना,
दिनांक-15 दिसम्बर, 2022

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा।

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1081-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**